



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2005/अग्रहायण 24, 1927

No. 1306]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2005/AGRAHAYANA 24, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1761(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 52(अ) तारीख 13 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड, जिसमें बाईपास भी शामिल है, का निर्माण करने (चार लेन बनाने), अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “दिना थाँथी” और “दि हिन्दू” दोनों में तारीख 22 फरवरी, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त किए गए हैं जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के तिरुनेलवेली तालुक के गंगईकोंडन गाँव के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड के अंतर्गत अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिला: तिरुनेलवेली

तालुक: तिरुनेलवेली

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल में वर्ग मीटर	भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	गंगईकोडन गाँव	19/1	शुष्क	निजी	700	शांति, पत्नी रविचन्द्रन राजशेखर, पुत्र सुबैया
		42/2ए	शुष्क	निजी	950	शांति, पत्नी रविचन्द्रन राजशेखर, पुत्र सुबैया
		42/3ए	शुष्क	निजी	750	गुरुसामी, पुत्र अंगावानायकर
		42/4ए	शुष्क	निजी	600	कृष्णासामी पुत्र शंकरन
		42/5ए	शुष्क	निजी	650	मुथाम्मल, पत्नी कदारकर
		42/6ए	शुष्क	निजी	800	सरस्वती पत्नी वीरैया
		42/7ए	शुष्क	निजी	850	मरिअप्पन, पुत्र पेचियाप्पन
		61/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	तमिल नाडु सरकार
		61/2 बी1	शुष्क	निजी	750	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन
		61/2सी 1ए	शुष्क	निजी	200	सेबेस्टियन पुत्र चेलैया
		61/2सी2ए	शुष्क	निजी	200	चिन्नादुरगै, पुत्र सुदालैमुथु
		61/2सी 3ए	शुष्क	निजी	100	पेचिमुथु, पुत्र पुधुमदन
		68/1ए	शुष्क	निजी	1650	1.अरुणाचलावडिवाम्मल पत्नी अय्यादुरै पंडियन
		68/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	3250	तमिल नाडु सरकार
		68/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	तमिल नाडु सरकार
		610	पोरमबोके	राज्य सरकार	4050	तमिल नाडु सरकार
		631/2बी	शुष्क	निजी	700	अरुलमिगु कालापिरन स्वामी
		643/1बी	शुष्क	निजी	550	अरुलमिगु कैलाशनाथ स्वामी
		644/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	2800	तमिल नाडु सरकार
		645/1	नग	निजी	750	मुरुगाकोनर, पुत्र मसानाकोनर
		645/2ए1	नग	निजी	500	मलैकोनर, पुत्र नारायणाकोनर
		645/2ए2	नग	निजी	450	1.एसाक्किकोनर, पुत्र सदापुनिकोनर 2.अरुमुगाकोनर, पुत्र सप्पानिकोनर
		645/2बी	पोरमबोके	राज्य सरकार	1200	तमिलनाडु सरकार
		646/2	शुष्क	निजी	50	अप्पावुकोनर
		647/7	पोरमबोके	राज्य सरकार	2150	तमिल नाडु सरकार
		647/6ए2	नग	निजी	700	रथिनाथाम्मल, पत्नी पेशची असासी
		655/1ए	नग	निजी	250	मुरुगोकोनर, पुत्र मसानाकोनर
		656/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	50	तमिलनाडु सरकार
		660/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	200	तमिलनाडु सरकार
		1474/2	शुष्क	निजी	5300	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1477/1बी	शुष्क	निजी	8700	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1477/2	शुष्क	निजी	100	केन्द्र सरकार
		1478/2	शुष्क	निजी	4050	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1481/2	शुष्क	निजी	3400	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1489/बी1	शुष्क	निजी	250	नटराज पिल्लई, पुत्र मुथुसामी पिल्लई
		1489/बी 2	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	तमिलनाडु सरकार

1	2	3	4	5	6	7
		1489/बी 3	शुष्क	निजी	1150	नटराज पिल्लई, पुत्र मुथुसामी पिल्लई
		1490/1ए2	शुष्क	निजी	4050	अरुलमिगु कैलाशनाथ स्वामी कोविल
		1490/1बी	शुष्क	निजी	50	अरुलमिगु कैलाशनाथ स्वामी कोविल
		1493/11	शुष्क	निजी	800	एडवर्ड, पुत्र पेरियासवारी मुथु
		1493/12	शुष्क	निजी	950	सवारीमुथुचेलैया पुत्र कोट्टाथान
		1493/13	शुष्क	निजी	950	सवारीमुथु, पुत्र चिन्नासवारीमुथु
		1493/14	शुष्क	निजी	800	सूसई, पुत्र कोइल एण्टोनी
		1493/15बी 2	शुष्क	निजी	150	चेलैया, पुत्र पेरियासवारीमु एवं 13 अन्य
		1493/17बी2	शुष्क	निजी	650	सवारीमुथुचेलैया पुत्र कोट्टाथान, प्रिंस सुरेशकुमार, पुत्र ए. सोलेमन
		1493/18बी 2	शुष्क	निजी	650	चेलैया, पुत्र पेरियासवारीमुथु
		1493/19बी	शुष्क	निजी	600	एण्टोनी, पुत्र कोइल एण्टोनी एवं दो अन्य
		1493/20सी	शुष्क	निजी	600	एण्टोनी, पुत्र चिन्नासवारीमुथु
		1493/20बी 2	शुष्क	निजी	100	फ्रांसिस पकियम, पुत्र चिन्नासवारीमुथु
		1494/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	20650	तमिलनाडु सरकार
		1648/2	शुष्क	निजी	11000	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1650/2	शुष्क	निजी	5850	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1651/2	शुष्क	निजी	8900	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1691/2	शुष्क	निजी	7900	पोनैया, पुत्र कुमारण्डी वेलु, पुत्र पोनेया
		1697/1ए2	शुष्क	निजी	1050	समुंगासुंदरी अम्माल, पत्नी रामासामी कोनर
		1697/1बी 2	शुष्क	निजी	750	सोलेप्पन, पुत्र अरुमुगम
		1697/1सी2	शुष्क	निजी	1600	सुबैया, पुत्र सुदालै मुथु कोनर
		1697/2बी	शुष्क	निजी	4200	चेलाम्मल, पत्नी सुब्रमण्य अय्यर
		1698/1ए2	शुष्क	निजी	250	सचिव के.एस. रमण एवं 5 अन्य
		1698/1बी 2	शुष्क	निजी	10100	मेटगिरास कंपनी शंकरनगर
		1698/2बी	शुष्क	निजी	1150	मेटगिरास कंपनी शंकरनगर
		1703/2	शुष्क	निजी	9600	एसक्की, पुत्र शिवागनाना मूपानर एवं 5 अन्य
		1705/2	शुष्क	निजी	4800	वुड कॉर्प इण्डिया कंपनी
		1706/2	शुष्क	निजी	2800	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1707/2	शुष्क	निजी	10100	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1709/2	शुष्क	निजी	11400	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1710/2	शुष्क	निजी	1300	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1899/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	3200	तमिलनाडु सरकार
		1902/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	1850	तमिलनाडु सरकार
		1928/2	शुष्क	निजी	6400	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1929/2	शुष्क	निजी	6550	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1931/2	शुष्क	निजी	6450	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिपकोट)
		1946/28	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	तमिलनाडु सरकार
		1946/29	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	तमिलनाडु सरकार
		1946/30	पोरमबोके	राज्य सरकार	1000	तमिलनाडु सरकार
		1946/31	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	तमिलनाडु सरकार
		1946/32	पोरमबोके	राज्य सरकार	400	तमिलनाडु सरकार
		1947/19बी	नाथम	निजी	50	शमुगानाथन, पुत्र भरैप्पन
		1947/20बी	शुष्क	निजी	1000	अरुलमिगु पिल्लैयर कोविल, (करुणानिधि नागर)

1	2	3	4	5	6	7
		1947/21	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	तमिलनाडु सरकार
		1948/21	पोरमबोके	राज्य सरकार	950	तमिलनाडु सरकार
		1948/22	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	तमिलनाडु सरकार
		1948/23	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	तमिलनाडु सरकार
		1949/26	पोरमबोके	राज्य सरकार	350	तमिलनाडु सरकार
		1949/27	पोरमबोके	राज्य सरकार	1750	तमिलनाडु सरकार
		1472/3	शुष्क	निजी	800	कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलिंग फ्लोर मिल्स (प्रा०) लि०
		1686/1	शुष्क	निजी	1000	जेबामनी, पुत्र जैकब
		1687/1ए	शुष्क	निजी	1350	शंकर केमीकल लिमिटेड
		1849/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	3050	तमिलनाडु सरकार
		1864/1ए	शुष्क	निजी	2100	कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलिंग फ्लोर मिल्स (प्रा०) लि०
		1871/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	200	तमिल नाडु सरकार
		1884/1बी 2ए	शुष्क	निजी	50	जी. के. कृष्णन, पुत्र कृष्णा अय्यर
		1884/1सी 2ए	शुष्क	निजी	150	डेनसिंह, पुत्र मणियन
		1884/1सी 3ए	शुष्क	निजी	100	बालमुरुगन, पुत्र विन्नासामी एवं दो अन्य
		1884/1सी 4ए	शुष्क	निजी	100	रामचन्द्रन एवं पाँच अन्य
		1884/2ए1	शुष्क	निजी	50	पेरिया एण्टोनी, पुत्र साविरीमुथु एवं चार अन्य
		1884/2बी 1	शुष्क	निजी	1600	विन्ना एण्टोनी, पुत्र साविरीमुथु एवं नौ अन्य
		1884/3	शुष्क	निजी	50	बृपल जॉर्ज पुत्र शमुगानाथम
		1884/4	शुष्क	निजी	300	चेयरमैनपंडी पुत्र चेलैया
		1884/5	शुष्क	निजी	450	रावनाम्मल, पत्नी सुब्बुनायडू एवं चार अन्य
		1884/6	शुष्क	निजी	100	गिलसन जॉस, पुत्र येशुनेसा नादर
		1884/7	शुष्क	निजी	100	देनसिंह, पुत्र मणियन
		1884/8	शुष्क	निजी	100	देनसिंह, पुत्र मणियन
		1887/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	1150	तमिलनाडु सरकार
		1888/1ए	शुष्क	निजी	1800	कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलिंग फ्लोर मिल्स (प्रा०) लि०

[फा. सं. भाराराप्रा/तक./एलए/एमके/1/2003]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2005

S.O. 1761(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.52 (E), dated the 13th January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, in the stretch of land from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification was published in the "Dina Dhanthi" and "The Hindu", both dated the 22nd February, 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report in respect of Gangaikondan village of Tirunelveli Taluk, Tirunelveli District in the state of Tamil Nadu to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

3770 612/05-2

SCHEDULE

Brief Description of land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land on National Highways No.7 from Km 120.000 to 224.000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

District : Tirunelveli

Taluk : Tirunelveli

Serial number	Name of the village	Survey number	Nature of land	Type of land	Area of land in square metres	Name of the owners
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gangaikondan Village	19/1	Dry	Private	700	Shanthi, W/o.Ravichandran Rajasekar, S/o. Subbiah
		42/2A	Dry	Private	950	Shanthi, W/o.Ravichandran Rajasekar, S/o. Subbiah
		42/3A	Dry	Private	750	Gurusamy, S/o. Angavanaicker
		42/4A	Dry	Private	600	Krishnasamy, S/o. Sankaran
		42/5A	Dry	Private	650	Muthammal, W/o. Kadarkarai
		42/6A	Dry	Private	800	Saraswathi, W/o. Veeraiya
		42/7A	Dry	Private	850	Mariappan, S/o. Petchiappan
		61/3	Poramboke	State Government	250	Government of Tamil Nadu
		61/2B1	Dry	Private	750	Indian Oil Corporation
		61/2C1A	Dry	Private	200	Sebastian, S/o. Chellaiah
		61/2C2A	Dry	Private	200	Chinnadurgai, S/o Sudalaimuthu
		61/2C3A	Dry	Private	100	Petchimuthu, S/o. Pudhumadan
		68/1A	Dry	Private	1650	I.Arunachalavadivammal W/o. Ayyadurai Pandian
		68/2	Poramboke	State Government	3250	Government of Tamil Nadu
		68/3	Poramboke	State Government	100	Government of Tamil Nadu
		610	Poramboke	State Government	4050	Government of Tamil Nadu
		631/2B	Dry	Private	700	Arulmigu Kallapiran Swamy
		643/1B	Dry	Private	550	Arulmigu Kailasanatha Swamy
		644/2	Poramboke	State Government	2800	Government of Tamil Nadu
		645/1	Wet	Private	750	Murugakonar, S/o. Masanakonar
		645/2A1	Wet	Private	500	Malaikonar, S/o. Narayanakonar

1	2	3	4	5	6	7
		645/2A2	Wet	Private	450	1.Esakkikonar, S/o. Sadamunikonar 2.Arumugakonar, S/o. Sappanikonar
		645/2B	Poramboke	State Government	1200	Government of Tamil Nadu
		646/2	Dry	Private	50	Appavukonar
		647/7	Poramboke	State Government	2150	Government of Tamil Nadu
		647/6A2	Wet	Private	700	Rathinathammal, W/o. Peratchi Asari
		655/1A	Wet	Private	250	Murugakonar, S/o. Masanakonar
		656/1	Poramboke	State Government	50	Government of Tamil Nadu
		660/1	Poramboke	State Government	200	Government of Tamil Nadu
		1474/2	Dry	Private	5300	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1477/1B	Dry	Private	8700	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1477/2	Dry	Private	100	Central Government of India
		1478/2	Dry	Private	4050	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1481/2	Dry	Private	3400	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1489/B1	Dry	Private	250	Nataraja Pillai, S/o. Muthusamy Pillai
		1489/B2	Poramboke	State Government	100	Government of Tamil Nadu
		1489/B3	Dry	Private	1150	Nataraja Pillai, S/o. Muthusamy Pillai
		1490/1A2	Dry	Private	4050	Arulmigu Kailasanatha Swamy Kovil
		1490/1B	Dry	Private	50	Arulmigu Kailasanatha Swamy Kovil
		1493/11	Dry	Private	800	Edward, S/o. Periyasavari Muthu
		1493/12	Dry	Private	950	Savarimuthuchelliah S/o. Kottathan
		1493/13	Dry	Private	950	Savarimuthu, S/o. Chinnasavarimuthu
		1493/14	Dry	Private	800	Soosai, S/o. Koil Anthony
		1493/15B2	Dry	Private	150	Chelliah, S/o. Periyasavarimuthu and 13 Others

1	2	3	4	5	6	7
		1493/17C2	Dry	Private	650	Savarimuthuchelliah S/o. Kottathan, Prince Sureshkumar, S/o. A. Solemn
		1493/18B2	Dry	Private	650	Chelliah, S/o. Periyasavarimuthu
		1493/19B	Dry	Private	600	Anthony, S/o. Koil Anthony and Two others
		1493/20C	Dry	Private	600	Anthony, S/o. Chinnasavarimuthu
		1493/20B2	Dry	Private	100	Francis Packiyam, S/o. Chinnasavarimuthu
		1494/2	Poramboke	State Government	20650	Government of Tamil Nadu
		1648/2	Dry	Private	11000	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1650/2	Dry	Private	5850	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1651/2	Dry	Private	8900	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1691/2	Dry	Private	7900	Ponniah, S/o. Kumarandi Velu, S/o. Ponniah
		1697/1A2	Dry	Private	1050	Shanmugasundari Ammal, W/o. Ramasamykonar
		1697/1B2	Dry	Private	750	Solaiappan, S/o. Arumugam
		1697/1C2	Dry	Private	1600	Subbiah, S/o. Sudalai Muthu Konar
		1697/2B	Dry	Private	4200	Chellammal, W/o. Subramaniya Ayyar
		1698/1A2	Dry	Private	250	Secretary K.S. Raman and Five Others
		1698/1B2	Dry	Private	10100	Metgiras Company Sankarnagar
		1698/2B	Dry	Private	1150	Metgiras Company Sankarnagar
		1703/2	Dry	Private	9600	Esakki, S/o. Sivagnana Moopnar and Five Others
		1705/2	Dry	Private	4800	Wood Corp India Company
		1706/2	Dry	Private	2800	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1707/2	Dry	Private	10100	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)

1	2	3	4	5	6	7
		1709/2	Dry	Private	11400	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1710/2	Dry	Private	1300	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1899/2	Poramboke	State Government	3200	Government of Tamil Nadu
		1902/2	Poramboke	State Government	1850	Government of Tamil Nadu
		1928/2	Dry	Private	6400	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1929/2	Dry	Private	6550	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1931/2	Dry	Private	6450	Chairman & Managing Director, State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT)
		1946/28	Poramboke	State Government	150	Government of Tamil Nadu
		1946/29	Poramboke	State Government	150	Government of Tamil Nadu
		1946/30	Poramboke	State Government	1000	Government of Tamil Nadu
		1946/31	Poramboke	State Government	100	Government of Tamil Nadu
		1946/32	Poramboke	State Government	400	Government of Tamil Nadu
		1947/19B	Natham	Private	50	Shanmughanathan, S/o. Mariappan
		1947/20B	Dry	Private	1000	Arulmigu Pillaiyar Kovil, (Karunanithi Nagar)
		1947/21	Poramboke	State Government	150	Government of Tamil Nadu
		1948/21	Poramboke	State Government	950	Government of Tamil Nadu
		1948/22	Poramboke	State Government	250	Government of Tamil Nadu
		1948/23	Poramboke	State Government	100	Government of Tamil Nadu
		1949/26	Poramboke	State Government	350	Government of Tamil Nadu
		1949/27	Poramboke	State Government	1750	Government of Tamil Nadu
		1472/3	Dry	Private	800	Kovilpatti Lakshmi Rolling Flour Mills (P) Ltd.
		1686/1	Dry	Private	1000	Jebamani, S/o. Jacob
		1687/1A	Dry	Private	1350	Sankar Chemical Limited
		1849/3	Poramboke	State Government	3050	Government of Tamil Nadu

3540 5/1/55-3

1	2	3	4	5	6	7
		1864/1A	Dry	Private	2100	Kovilpatti Lakshmi Rolling Flour Mills (P) Ltd.
		1871/1	Poramboke	State Government	200	Government of Tamil Nadu
		1884/1B2A	Dry	Private	50	G.K. Krishnan, S/o. Krishna Ayyar
		1884/1C2A	Dry	Private	150	Densingh, S/o. Maniyan
		1884/1C3A	Dry	Private	100	Balamurugan, S/o. Chinnasamy & two others
		1884/1C4A	Dry	Private	100	Ramachandran & five others
		1884/2A1	Dry	Private	50	Periya Antony, S/o. Savarimuthu & Four others
		1884/2B1	Dry	Private	1600	Chinna Antony, S/o. Savarimuthu & Nine others
		1884/3	Dry	Private	50	Boopal George S/o. Shanmuganathan
		1884/4	Dry	Private	300	Chairmanpandi S/o. Chelliah
		1884/5	Dry	Private	450	Ravanammal, W/o. Subbunaidu and 4 others
		1884/6	Dry	Private	100	Gilson Jones, S/o. Yeshunesa Nadar.
		1884/7	Dry	Private	100	Densingh, S/o. Manian
		1884/8	Dry	Private	100	Densingh, S/o. Manian
		1887/1	Poramboke	State Government	1150	Government of Tamil Nadu
		1888/1A	Dry	Private	1800	Kovilpatti Lakshmi Rolling Flour Mills (P) Ltd.,

[F. No. NHA/Tech./LA/MK/1/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.